

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर 2015—कार्तिक 25, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. एफ. ए-6-3-2015-1-पांच (30).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को, कॉलम (03) में यथाविनिर्दिष्ट संभाग के लिए अतिरिक्त संभागीय उपायुक्त के रूप में नियुक्त करती है और संभाग में लंबित या उद्भूत होने वाले कर निर्धारण प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है. यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा, अर्थात्:—

सारणी

अ. क्र. (1)	उपायुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	संभाग (3)
1	श्री एम. कुम्हार, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	उज्जैन संभाग
2	श्री आर. के. गुप्ता, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर	इन्दौर संभाग-01, 02 तथा 03

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. एफ. ए-6-3-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-6-3-2015-1-पांच (37), दिनांक 16 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th November 2015

No. F-A-6-3-2015-V (30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby appoints the Deputy Commissioner of Commercial Tax mentioned in Column (2) of the Table below as Additional Divisional Deputy Commissioner for the Division specified in column (3) and confers the powers to dispose of the assessment cases pending or arising in the division. This responsibility shall be in addition to their present responsibilities namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Deputy Commissioner and present posting	Division
(1)	(2)	(3)
1	Shri M. Kumhar, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Ujjain Division
2	Shri R. K. Gupta, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Office, Indore.	Indore Division 01, 02 and 03

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.